

# प्रेस विज्ञप्ति

## जनपद-बस्ती

### दिनांक-10.11.2022

**थाना छावनी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम डुहवा मिश्र में भैंस चराने गई लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को थाना छावनी पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार-**

थानाध्यक्ष छावनी श्री दुर्गेश कुमार पाण्डेय मय पुलिस टीम एवं सर्विलांस सेल टीम बस्ती की संयुक्त कार्यवाही द्वारा थाना छावनी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम डुहवा मिश्र में दिनांक-31.10.2022 को भैंस चराने गयी लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध थाना छावनी जनपद बस्ती पर मु0अ0सं0 338/2022 धारा 376/ 323 IPC पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था कि दिनांक-10.11.2022 को पंजीकृत अभियोग से सम्बंधित अज्ञात अभियुक्त की पहचान पंजीकृत अभियोग से सम्बंधित पीड़िता द्वारा किये जाने पर अभियुक्त अभय पाण्डेय उर्फ करिया पुत्र जगतनारायण पाण्डेय निवासी ग्राम बड़हर कला थाना हरैया जनपद बस्ती को रामजानकी तिराहे से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय बस्ती रवाना किया गया |

#### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

**1.** अभय पाण्डेय उर्फ करिया पुत्र जगतनारायण पाण्डेय निवासी ग्राम बड़हरकला थाना हरैया जनपद बस्ती |

#### **पूछताछ का विवरण-**

पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक-31.10.2022 को मैं गाँजा पीने के बाद ग्राम डुहवा मिश्र जाने वाली कच्ची नहर मार्ग से होते हुए आ रहा था कि एक लड़की भैंस चराते हुए मिली जिससे मैं पूछा कि भैंस मारती तो नहीं है, जिस पर वह लड़की बिना कुछ बोले दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गयी | मुझे गाँजा का नशा चढ़ गया था तो मैं इधर-उधर देखकर उस लड़की को पीछे से पकड़कर जमीन पर पटक दिया जिस पर वह चीखने-चिल्लाने लगी तो मैं उसे दो-तीन थप्पड़ मारकर उसका मुंह दबा दिया | मैं उसके साथ जबरन सम्बन्ध बनाना चाह रहा था लेकिन वह छटपटाने लगी जिससे मुझे गुस्सा आ गया और मैं उसके अंदरूनी पार्ट में हाथ डाल दिया जिससे वह अचेत अवस्था में हो गयी जिसे मैं वहीं छोड़कर भाग गया | मैं इधर-उधर लुक-छिपकर घटना के बारे में जानकारी कर रहा था कि कोई बात आगे न बढ़े लेकिन जब मैं अगले दिन सुना कि इस मामले में बड़े-बड़े अधिकारी आकर छान-बिन कर रहे हैं तब मैं

दिनांक-01.11.2022 को घर वालों से कमाने जाने की बात बता कर अयोध्या से ट्रेन पकड़कर दिल्ली चला गया था, जहां से मैं यहाँ की गतिविधियों पर ध्यान दे रहा था कि कुछ दिन बीत जाने के बाद मैं यह सोचकर दिल्ली से पुनः वापस अपने गांव चला आया कि अब तक तो मामला कुछ शान्त हो गया होगा लेकिन जब यहाँ वापस आया तब देखा कि यहाँ पुलिस की गतिविधियाँ काफी तेज हैं जिस पर मैं सोचा कि कुछ दिन और बाहर रहना ही ठीक है, जिसके बाद पुनः दिल्ली जाने के लिये निकल रहा था कि आप लोग उस लड़की को साथ लेकर जा रहे थे जिस समय लड़की ने मुझे देख लिया तब मैं भागने का प्रयास किया किन्तु आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया |

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. थानाध्यक्ष छावनी श्री दुर्गेश कुमार पाण्डेय जनपद बस्ती ।
2. उ0नि0 श्री नन्दलाल सरोज, उ0नि0 श्री वीरेन्द्र यादव थाना छावनी जनपद बस्ती ।
3. हे0का0 के0यन0, का0 शिवम सिंह तिवारी, का0 पंकज, म0का0 शालिनी वर्मा थाना छावनी जनपद बस्ती ।
4. का0 सतेंद्र सिंह, का0 संतोष यादव सर्विलांस सेल जनपद बस्ती ।



